

उद्योगपतियों की सुविधा के लिए दानह उद्योग केन्द्र ने लाँच की अपनी वेबसाइट

■ उद्योग विभाग की योजनाओं एवं सुविधाओं को निवेशक अब एक क्लिक में जान सकेंगे : नितिन जिंदल



सिलवासा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक आशीष कुंद्रा की पहल पर प्रदेश में नये निवेश को आकर्षित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नितिन जिंदल द्वारा नित नई सुविधाएं उद्योगों के लिए शुरू की जा रही है। प्रदेश में पहली बार सिंगल एप्लीकेशन का कांसेप्ट लेकर आने वाले नितिन जिंदल ने अब प्रशासक आशीष कुंद्रा की पहल पर जिला उद्योग केन्द्र को पूरी तरह से हाईटेक बनाते हुए आज विभाग की अपनी वेबसाइट शुरू की। जिससे जिला उद्योग केन्द्र से जुड़ी कोई भी जानकारी अब लोग एक क्लिक में जान सकते हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक नितिन जिंदल ने बताया कि प्रदेश में आने

वाले उद्योगपतियों को तथा आम जनमानस तक जिला उद्योग केन्द्र की योजनाओं एवं सुविधाओं को पहुँचाने के लिए प्रशासक आशीष कुंद्रा ने विभाग की वेबसाइट बनाने के निर्देश दिये थे। जिसके बाद उद्योग सचिव पी. एस. रेड्डी की सक्रियता से कम ही दिनों में विभाग की वेबसाइट <http://dic.dnh.nic.in> बनाकर तैयार कर दी गई है। जिसमें सभी तरह की जानकारियां समाहित की गई हैं जो उद्योगों के लिए आवश्यक होती हैं। नितिन जिंदल ने बताया कि अभी जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कई ऐसी सेवाएं शुरू की जाएंगी जो कि निवेशकों के लिए पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के साथ लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को भी सरल कर देगी।